

## जनपद बाराबंकी

दिनांक 23.02.2021

थाना सफदरगंज पुलिस टीम ने पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर को किया गिरफ्तार, तमंचा कारतूस व अन्य उपकरण बरामद।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण रखने के लिए सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु समस्त थाना प्रभारियों को विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में आज दिनांक -23.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक सफदरगंज श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस टीम के साथ बांसा जाने वाली रोड मुश्कीनगर के पास चेकिंग की जा रही थी कि प्रातः एक सेन्ट्रो कार नम्बर-यूपी 32 बीबी 2109 आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो सेन्ट्रो कार में सवार लोगों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गयी, जिसमें एक पशु तस्कर सोनू पुत्र लतीफ मास्टर निवासी कजियाना थाना सतरिख जनपद बाराबंकी घायल हो गया और उसके दो साथी मौके से भागने में सफल रहे, अपराधियों द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी अरुण कुमार थाना सफदरगंज भी घायल हो गये। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर , एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद सेन्ट्रो कार नम्बर-यूपी 32 बीबी 2109, एक अदद बांका, दो अदद चाकू व एक लकड़ी का ठीहा बरामद हुआ । घायल पशु तस्कर व आरक्षी उपरोक्त को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी बड़ागांव भेजा गया। अभियुक्त सोनू उपरोक्त थाना सफदरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-55/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 379 भादवि में वांछित अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सफदरगंज पर मु0अ0सं0 65/2021 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 66/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सोनू पुत्र लतीफ मास्टर निवासी कजियाना थाना सतरिख जनपद बाराबंकी

### बरामदगी का विवरण -

1. एक अदद तमंचा 315 बोर
2. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3. दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
4. एक अदद सेन्ट्रो कार नम्बर-यूपी 32 बीबी 2109
5. एक अदद बांका
6. दो अदद चाकू
7. एक लकड़ी का ठीहा

### आपराधिक इतिहास (अभियुक्त सोनू उपरोक्त)-

1. मु0अ0सं0 30/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 243/18 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना सतरिख जनपद बाराबंकी

3. मु0अ0सं0 320/19 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी
4. मु0अ0सं0 321/19 धारा 401 भादवि थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी
5. मु0अ0सं0-55/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 379 भादवि थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी

**पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक सफदरगंज श्री सुधीर कुमार सिंह जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री देवेश कुमार, उ0नि0 श्री रवीन्द्र यादव थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव, उ0नि0 श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
4. हे0का0 चालक भूपेन्द्र यादव, का0 सौरभ कुमार जनपद बाराबंकी।
5. हे0का0 प्रदीप सिंह, का0 अरुण थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।